



दिनांक 31.03.2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक के नये पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल III) के पिलर 3 के अंतर्गत प्रकटीकरण (समेकित आधार पर)

Disclosures (on consolidated basis) under Pillar 3 in terms of New Capital Adequacy Framework (Basel III) of Reserve Bank of India as on 31.03.2018

डीएफ 1: अनुप्रयोग का क्षेत्र एवं पूंजी पर्याप्तता

प्रकटीकरण का फ्रेमवर्क बैंक ऑफ बड़ौदा पर समेकित आधार पर लागू होता है, जो कि समूह में सर्वोच्च बैंक है।

DF 1. Scope of application and Capital Adequacy

The framework of disclosures applies to Bank of Baroda, on consolidated basis, which is the top bank in the group

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) Qualitative Disclosures:

इकाई का नाम/ निगमित देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या इकाई को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation	क्या इकाई को समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के लिए कारणों का वर्णन Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकित किया गया है तो कारणों का वर्णन Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
नैनीताल बैंक लि./ भारत The Nainital Bank Ltd. / India	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
बॉब कैपिटल मार्केट लि. / भारत BOB Capital Markets Ltd /India	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
बॉब फाइनेंसिएल सोल्यूशन लिमिटेड (पूर्व में बॉब कार्ड्स लिमिटेड) भारत BOB Financial Solutions Limited (erstwhile BOB Cards Ltd.)/ India	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विस लिमिटेड / भारत Baroda Global Shared services Limited / India	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	नहीं No	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि./ बोत्सवाना Bank of Baroda (Botswana) Ltd./ Botswana	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि./ केन्या Bank of Baroda (Kenya) Ltd. / Kenya	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि./ यूगांडा Bank of Baroda (Uganda) Ltd. / Uganda	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
बैंक ऑफ बड़ौदा (गयाना) लि./ गयाना Bank of Baroda (Guyana) Inc. /Guyana	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA



इकाई का नाम/ निगमित देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या इकाई को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation	क्या इकाई को समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के लिए कारणों का वर्णन Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकित किया गया है तो कारणों का वर्णन Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि./ तंजानिया Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. /Tanzania	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
बैंक ऑफ बड़ौदा त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो लि./ त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो Bank of Baroda Trinidad &Tobago Ltd. / Trinidad &Tobago	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि./ घाना Bank of Baroda (Ghana) Ltd. /Ghana	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि./ न्यूजीलैंड Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. /New Zealand	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
बैंक ऑफ बड़ौदा (यू.के.) लि./ यू.के. BOB (UK) Ltd. / UK	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	हां Yes	लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. / भारत India First Life Insurance Company Ltd. / India	हां Yes	अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidaton Method	नहीं No	विनियामक पूंजी से निवेश की गयी आस्ति कम कर दी गई है Proportionate Consolidation Method	लागू नहीं NA	विनियामक दिशा-निर्देश Insurance Joint Venture: Not under scope of Regulatory Consolidation
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी/ मलेशिया India International Bank (Malaysia) Bhd. / Malaysia	हां Yes	अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidaton Method	नहीं No	अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidaton Method	लागू नहीं NA	लागू नहीं Joint Venture: Not under scope of Regulatory Consolidation
इंडिया इंफ्राडेब्ट लि. / भारत India Infradebt Ltd. / India	हां Yes	अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidaton Method	नहीं No	अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidaton Method	लागू नहीं NA	लागू नहीं Joint Venture: Not under scope of Regulatory Consolidation
इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड / ज़ाम्बिया Indo Zambia Bank Limited / Zambia	हां Yes	इक्विटी पद्धति Equity Method	नहीं No	इक्विटी पद्धति Equity Method	लागू नहीं NA	लागू नहीं Associate: Not under scope of Regulatory Consolidatio



इकाई का नाम/ निगमित देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या इकाई को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation	क्या इकाई को समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के लिए कारणों का वर्णन Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकित किया गया है तो कारणों का वर्णन Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि./भारत Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. / India	हां Yes	इक्विटी पद्धति Equity Method	नहीं No	इक्विटी पद्धति Equity Method	लागू नहीं NA	लागू नहीं Associate: Not under scope of Regulatory Consolidation
बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank / India	हां Yes	इक्विटी पद्धति Equity Method	नहीं No	इक्विटी पद्धति Equity Method	लागू नहीं NA	लागू नहीं Associate: Not under scope of Regulatory Consolidation
बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank / India	हां Yes	इक्विटी पद्धति Equity Method	नहीं No	इक्विटी पद्धति Equity Method	लागू नहीं NA	लागू नहीं Associate: Not under scope of Regulatory Consolidation
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank / India	हां Yes	इक्विटी पद्धति Equity Method	नहीं No	इक्विटी पद्धति Equity Method	लागू नहीं NA	लागू नहीं Associate: Not under scope of Regulatory Consolidation
बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Gujarat Gramin Bank / India	हां Yes	इक्विटी पद्धति Equity Method	नहीं No	इक्विटी पद्धति Equity Method	लागू नहीं NA	लागू नहीं Associate: Not under scope of Regulatory Consolidation



ए. समूह की ऐसी इकाइयों की सूची जिन्हें समेकन के लिए शामिल किया गया है:

a. List of group entities considered for consolidation:

नैनीताल बैंक लि.	The Nainital Bank Ltd.
बॉब कैपिटल मार्केट लि.	BOB Capital Markets Ltd
बॉब फाइनेंसिएल सोल्यूशन लिमिटेड (पूर्व में बॉब कार्ड्स लिमिटेड) / भारत	BOB Financial Solutions Limited (erstwhile BOB Cards Ltd.)/ India
बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विस लिमिटेड / भारत	Baroda Global Shared services Limited/India
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.	Bank of Baroda (Botswana) Ltd.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि.	Bank of Baroda (Kenya) Ltd.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि.	Bank of Baroda (Uganda) Ltd.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गयाना) लि.	Bank of Baroda (Guyana) Inc.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि.	Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो लि.	Bank of Baroda Trinidad &Tobago Ltd.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि.	Bank of Baroda (Ghana) Ltd.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.	Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यू.के.) लि.	BOB (UK) Ltd.
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी	India International Bank (Malaysia) Bhd.
इंडिया इन्फ्राडेब्ट लि.	India Infradebt Ltd.
इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड	Indo Zambia Bank Limited
बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.	Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.
बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	Baroda Pioneer Trustee Co. Pvt Ltd
बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	Baroda Gujarat Gramin Bank



बी. समूह की ऐसी इकाइयों की सूची जिन्हें समेकन के विनियामक तथा लेखांकन दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए शामिल नहीं किया गया है :

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation:

इकाई का नाम/ निगमित देश Name of the entity / country of incorporation	इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक के धारण का (%) % of bank's holding in the total equity	इकाई के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश का विनियामक प्रबंध Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	कुल तुलनपत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
शून्य / NIL					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ii) Quantitative Disclosures:

सी. समेकन के लिए शामिल की गई समूह की इकाइयों की सूची:

c. List of group entities considered for consolidation:

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

इकाई का नाम / निगमित देश (जैसा कि उपरोक्त (i) ए में दर्शाया गया है) Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलनपत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
नैनीताल बैंक लि./ भारत The Nainital Bank Ltd. / India	बैंकिंग Banking	62156.08	811468.98
बॉब कैपिटल मार्केट लि. / भारत BOB Capital Markets Ltd /India	गैर बैंकिंग Non Banking	15658.13	16121.77
बॉब फाइनेंसिएल सोल्यूशंस लिमिटेड (पूर्व में बॉब कार्ड्स लिमिटेड) / भारत BOB Financial Solutions Limited (erstwhile BOB Cards Ltd.)/ India	गैर बैंकिंग Non Banking	24360.00	39874.02
बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विस लिमिटेड / भारत Baroda Global Shared services Limited/India	गैर बैंकिंग Non Banking	1053.82	1084.82
बड़ौदा सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड / भारत Baroda Sun Technology Limited/India	गैर बैंकिंग Non Banking	0.00	0.00
बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि./ बोत्सवाना Bank of Baroda (Botswana) Ltd./ Botswana	बैंकिंग Banking	19277.97	117152.83
बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि./ केन्या Bank of Baroda (Kenya) Ltd. / Kenya	बैंकिंग Banking	110764.80	594865.44
बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि./ यूगांडा Bank of Baroda (Uganda) Ltd. / Uganda	बैंकिंग Banking	58161.76	270278.40
बैंक ऑफ बड़ौदा (गयाना) लि./ गयाना Bank of Baroda (Guyana) Inc. / Guyana	बैंकिंग Banking	8919.90	45408.80

इकाई का नाम / निगमित देश (जैसा कि उपरोक्त (i) ए में दर्शाया गया है) Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलनपत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि./ तंजानिया Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. / Tanzania	बैंकिंग Banking	10632.15	48186.33
बैंक ऑफ बड़ौदा त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो लि./ त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd. / Trinidad & Tobago	बैंकिंग Banking	5344.59	41690.26
बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि./ घाना Bank of Baroda (Ghana) Ltd. /Ghana	बैंकिंग Banking	24140.44	56369.49
बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि./ न्यूजीलैंड Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. / New Zealand	बैंकिंग Banking	22156.60	54528.98
बॉब (यू.के.) लि./ यू.के. BOB (UK) Ltd. / UK	गैर बैंकिंग Non Banking	4620.36	4620.36
इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी/ मलेशिया India International Bank (Malaysia) Bhd. / Malaysia	बैंकिंग Banking	20177.07	28123.85
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. / भारत India First Life Insurance Company Ltd. / India	गैर बैंकिंग Non Banking	26530.68	576364.77
इंडिया इन्फ्राडेब्ट लि. / भारत India Infradebt Ltd. / India	गैर बैंकिंग Non Banking	95708.74	831651.55
इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड / जाम्बिया Indo Zambia Bank Limited / Zambia	बैंकिंग Banking	49312.63	229481.64
बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि./ भारत Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. / India	गैर बैंकिंग Non Banking	5965.00	7330.49
बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि./ भारत Baroda Pioneer Trustee Co. Pvt Ltd / India	गैर बैंकिंग Non Banking	8.68	15.30
बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank / India	बैंकिंग Banking	122171.35	2296636.43
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank / India	बैंकिंग Banking	102382.35	1605399.34
बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Gujarat Gramin Bank / India	बैंकिंग Banking	15616.67	407302.33



डी. उन सभी अनुषंगियों में पूंजीगत विसंगतियों की कुल राशि जो समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं की गई है अर्थात् जो घटा दी गई है :

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

इकाइयों का नाम/ निगमित देश Name of the subsidiaries / country of incorporation	इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक के धारण का (%) % of bank's holding in the total equity	पूंजीगत कमियां Capital deficiencies
शून्य / Nil				

ई. बीमा इकाइयों में बैंक के कुल हित की कुल राशि (अर्थात् वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारित है :

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

इंश्योरेंस इकाइयों का नाम / निगमित देश Name of the insurance entities / country of incorporation	इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलनपत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक के धारण का % / वोटिंग शक्ति का अनुपात % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	जोखिम भारित पद्धति प्रयोग करने बनाम पूर्ण कटौती पद्धति प्रयोग करने का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
शून्य / Nil				

एफ. बैंकिंग समूह में नियामक पूंजी अथवा निधियों के अंतरण में कोई प्रतिबंध या अड़चन :

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

प्रतिबंध तथा अड़चनों के संबंध में मेजबान देशों का स्थानीय कानून तथा विनियम लागू है. समूह इकाइयों के बीच पूंजीगत निधियों का अंतरण प्रतिबंधित है.

With regard to restriction and impediments, local laws and regulation of host countries are applicable. The transfer of Capital funds within the Group entities is restricted.

डीएफ 2 : पूंजी पर्याप्तता

DF 2. Capital Adequacy

ए. बैंक जमाकर्ताओं, सामान्य ऋणदाताओं तथा हितधारकों को अप्रत्याशित हानियों से सुरक्षित रखने के लिए एक्सपोजरों, व्यवसाय इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम से बचाव के लिए पूंजी की व्यवस्था रखता है. बैंक के पास नियामक तथा आर्थिक पूंजी दोनों के लिए एकीकृत जोखिम / पूंजी मॉडल तैयार करने हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति है ताकि सभी जोखिमों एवं उचित पूंजी आबंटन को व्यापक रूप से विकसित किया जा सके.

a. Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses. Bank has a well-defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy to comprehensively evaluate and document all risks and to provide appropriate capital so as to evolve a fully integrated risk/ capital model for both regulatory and economic capital.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत पद्धति, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धति तथा सीआरएआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति अपनायी है.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक जरूरतों तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है. बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक

The capital requirement is affected by the economic environment, regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. Capital Planning exercise of the bank is carried out every year to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at the time

कि आर्थिक मंदी के दौर में भी, पूंजी पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूंजीगत आयोजना की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता.
- कारोबार रणनीति, नीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लक्षित तथा धारणीय पूंजी
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है.
- पूंजीगत योजना को वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है. बैंक की नीति आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (न्यूनतम 13% पूंजी पर्याप्तता अनुपात या समय-समय पर बैंक के निर्णयानुसार) में निर्धारित पूंजी को बनाए रखना है, इसके साथ ही बैंक की नीति भविष्य में कारोबार वृद्धि के लिए पूंजी को बनाये रखना है ताकि आवश्यक न्यूनतम पूंजी को सतत आधार पर बनाए रखा जा सके. अनुमान के आधार पर बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से टियर - 1 या टियर - 2 में पूंजी संगृहीत करता है. बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति की समीक्षा की जाती है.

समेकित आधार पर (राशि ₹ लाखों में)

(बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं

- मानकीकृत पद्धति के अध्वधीन संविभाग : ₹ 3930113.41
- प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर : शून्य

(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं

- ब्याज दर जोखिम : ₹ 167482.45
- विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) : ₹ 6515.67
- इक्विटी जोखिम : ₹ 93945.98

(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं

- आधारभूत संकेतक पद्धति : ₹ 371411.35
- मानकीकृत पद्धति (यदि लागू हो) : लागू नहीं

(ई) कॉमन इक्विटी टियर 1 तथा कुल पूंजीगत अनुपात

बैंक ऑफ बड़ौदा (समेकित आधार पर) :

कुल आरडब्ल्यू के लिए कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी : 10.08%

कुल आरडब्ल्यू के लिए टियर 1 पूंजी : 11.27%

कुल पूंजी: 12.87%

डीएफ 3. ऋण जोखिम के संदर्भ में सामान्य प्रकटीकरण

ए. बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति हैं:

बैंक की पूर्व में देय और खराब आस्तियां:

भा.रि.बैं. के आईआरएसी मानदंडों अनुसार बैंक की अनर्जक आस्तियां (एनपीए) और अनर्जक निवेश (एनपीआय) पूर्व देय और खराब आस्तियों के तहत वर्गीकृत हुए हैं.

बैंक का क्रेडिट जोखिम दर्शन, वास्तुशिल्प और प्रणाली.

ऋण जोखिम दर्शन

- जोखिम प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि बैंक के संसाधनों की सुरक्षा, कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ शेयर धारकों के आर्थिक मूल्य में बढोत्तरी हो तथा सभी हित धारकों के हित संरक्षित हों.

of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy, policy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.
- The capital plan is revised on an annual basis. The policy of the bank is to maintain capital as prescribed in the ICAAP Policy (minimum 13.00% Capital Adequacy Ratio or as decided by the Bank from time to time). At the same time, Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis. On the basis of the estimation bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with due approval of its Board of Directors. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis.

Consolidated Basis (Amt in ₹ Lakhs)

(b) Capital requirements for credit risk:

- Portfolios subject to Standardized approach: ₹ 3930113.41
- Securitizations exposures: Nil

(c) Capital requirements for market risk:

- Interest rate risk: ₹ 167482.45
- Foreign exchange risk (including gold): ₹ 6515.67
- Equity risk: ₹ 93945.98

(d) Capital requirements for operational risk:

- Basic Indicator Approach: ₹ 371411.35
- The Standardized Approach (if applicable): NA

(e) Common Equity Tier 1, and Total Capital ratios:

Bank of Baroda (Consol Basis):

Common Equity Tier I capital to Total RWA: 10.08%

Tier I capital to Total RWA: 11.27%

Total Capital: 12.87%

DF 3. General disclosures in respect of Credit Risk

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

PAST DUE AND IMPAIRED ASSETS OF THE BANK:

The Non- Performing Assets (NPA) and Non- Performing Investments (NPI) of the bank as per the IRAC norms of RBI are classified under past due and impaired assets.

THE CREDIT RISK PHILOSOPHY, ARCHITECTURE AND SYSTEMS OF THE BANK:

Credit Risk Philosophy:

- To optimize the risk and return envisaged in order to see that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the stakeholders



- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनाये ताकि विभिन्न चैनलों को जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके.
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त के अभिनियोजन के मामले में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में सुनियोजित वृद्धि से लक्ष्य प्राप्त किये जायें.
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टाफ को सहयोग प्रदान करना.
- विभिन्न ऋणी वर्गों को आवश्यकता आधारित और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना.
- स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कदम उठाते हुए ऋण प्रबंधन कौशल को प्रभावी बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता-युक्त बनाया जा सके.
- गुणवत्ता मूल्यांकन एवं तत्परता के साथ विस्तृत दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से करते हुए ऋण प्रस्तावों पर कार्यवाही करना.
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक / अन्य प्राधिकारियों, एक्सपोजर मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण दिशानिर्देशों, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन करना.

बैंक की संरचना और प्रणालियां:

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यो के लिए निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड के जोखिम प्रबंधन समिती का गठन किया गया है.
- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उनकी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, के लिए ऋणनीति समिती का गठन किया गया है.
- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना.
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष निर्धारित सीमाओं के तहत पहचान, स्तर, देखरेख तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखते हैं.
- बोर्ड / नियामकों आदि द्वारा तैयार किए गए जोखिम मानदंड तथा संभावना सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना.
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस का विकास करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देखरेख, समस्याओं की पहचान तथा कमियों को पूरा करना.
- संविभाग मूल्यांकन करना, अर्थव्यवस्था, उद्योग पर तुलनात्मक विवेचना तैयार करना, ऋण संविभाग पर लचीलेपन का परीक्षण करना, आदि.
- निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन पर ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना.

जोखिम रिपोर्टिंग की संभावनाएं व प्रकृति और/अथवा आकलन पद्धति:

बैंक के पास अपने ऋण जोखिम के लिए मजबूत ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली उपलब्ध है. ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष

are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.

- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speedy delivery, in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

- Risk Management Committee of the Board has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies.
- Formulating policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Risk Management cells deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, monitoring quality of loan portfolio, identification of problems and correction of deficiencies.
- Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio etc.,
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

The Scope and Nature of Risk Reporting and / or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify

में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता देखरेख, बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न मानदंडों को पूरा करने के लिए आस्तियों की कीमतों को लचीला बनाना शामिल है।

बैंक की मजबूत ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाये जा रहे स्वरूप और विश्व की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर आधारित है और यह बैंक को ऋण आस्तियों में चूक की संभावनाओं का निर्धारण करने तथा चूक की गंभीरता का पता लगाने में सहयोग करती है और इस प्रकार यह प्रणाली बैंक को पद्धति निर्माण तथा आस्ति गुणवत्ता को बरकरार रखने में मदद करती है।

ऋण जोखिम के संबंध में मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(बी) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:

विवरण Particulars	(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)	
	निधि आधारित Fund Based	गैरनिधि आधारित Non-Fund Based
कुल सकल ऋण जोखिम : (एक्सपोजर) Total Gross Credit Risk : (Exposure)	53530070.97	9676412.24

(सी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण, (निधि आधारित तथा गैर आधारित अलग-अलग)

(c) **Geographic distribution of exposures, (Fund based and Non-fund based separately)**

विवरण Particulars	(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)	
	निधि आधारित Fund Based	गैरनिधि आधारित Non-Fund Based
कुल सकल ऋण जोखिम : (एक्सपोजर) (घरेलू + घरेलू अनुषंगियां) Total Gross Credit Risk : (Exposure) (Domestic + Domestic Subsidiaries)	40490959.13	8412154.63
कुल सकल ऋण जोखिम : (एक्सपोजर) (विदेशी + विदेशी अनुषंगियां) Total Gross Credit Risk : (Exposure) (Overseas + Overseas Subsidiaries)	13039111.84	1264257.61

(डी) एक्सपोजर का उद्योग टाइप संवितरण (समेकित) (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित अलग-अलग):

(d) **Industry type distribution of exposures (Consolidated) (Fund based and Non-fund based separately):**

क्रम संख्या Sr No	उद्योग	Industry	निधि आधारित FB Exposure	गैर-निधि आधारित NFB Exposure	कुल Total
1ए	खनन एवं उत्खनन	A Mining and Quarrying	1004346.54	71980.71	1076327.25
2ए.1	कोयला	2A.1 Coal	202756.39	12333.48	215089.86
3ए.2	अन्य	3A.2 Other	801590.16	59647.23	861237.39
4बी.	खाद्य प्रसंस्करण	4B. Food Processing	1308278.18	233352.61	1541630.79
5बी.1	चीनी	5B.1 Sugar	197765.49	5810.63	203576.12
6बी.2	खाद्य तेल एवं वनस्पति	6B.2 Edible Oils and Vanaspati	192190.30	174111.27	366301.57
7बी.3	चाय	7B.3 TEA	18732.18	648.22	19380.40
8बी.4	काफी	8B.4 Coffee	1184.16	0.20	1184.36
9बी.5	अन्य	9B.5 Others	898406.05	52782.29	951188.34
10सी.	पेय पदार्थ	10C. Beverages	70862.71	4233.41	75096.12
11सी.1	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	11C.1 Tobacco and tobacco products	48520.14	3210.79	51730.93
12सी.2	अन्य	12C.2 Others	22342.57	1022.62	23365.19
13डी.	टैक्सटाइल	13D. Textiles	2050044.32	259980.81	2310025.13
14डी.1	कॉटन टैक्सटाइल	14D.1 Cotton Textile	1068475.77	52115.38	1120591.15



क्रम संख्या Sr No	उद्योग	Industry	निधि आधारित FB Exposure	गैर-निधि आधारित NFB Exposure	कुल Total
15डी.2	जूट टेक्सटाइल	15D.2 Jute Textile	56006.40	3879.48	59885.88
16डी.3	हस्तशिल्प / खादी	16D.3 Handicraft/Khadi	10467.31	1078.00	11545.31
17डी.4	सिल्क	17D.4 Silk	67645.34	9816.66	77462.00
18डी.5	वूलन	18D.5 Woolen	18026.70	463.85	18490.54
19डी.6	अन्य	19D.6 Others	829422.81	192627.44	1022050.25
20	डी में से स्पिनिंग मिल्स	20Out of D to spinning Mills	0.00	0.00	0.00
21ई.	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	21E.Leaner and Leather products	49171.43	3317.99	52489.42
22एफ.	काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद	22F.Wood and Wood products	69375.11	14584.66	83959.77
23जी.	कागज एवं कागज उत्पाद	23G.Paper and Paper products	208718.40	17009.19	225727.59
24एच.	पेट्रोलियम	24H.Petroleum	395065.94	560767.65	955833.59
25आय.	रसायन और रसायन उत्पाद	25I.Chemicals and Chemical Products	1774533.91	433916.78	2208450.69
26आय.1	उर्वरक	26I 1.Fertilizers	305648.93	138574.31	444223.24
27आय.2	ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल	27I.2 Drugs and Pharmaceuticals	510163.13	133048.91	643212.04
28आय.3	पेट्रो-केमिकल्स	28I.3 Petro-Chemicals	271596.46	45878.88	317475.34
29आय.4	अन्य	29I.4 Other	687125.40	116414.68	803540.08
30 जे	रबड प्लास्टिक एवं अन्य उत्पाद	30J.Rubber Plastic and their Products	416961.12	112669.01	529630.13
31के.	ग्लास एवं ग्लासवेयर	31K.Glass and Glassware	151983.94	32280.07	184264.01
32एल.	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	32L.Cement and Cement Products	166448.47	40772.51	207220.98
33एम.	मूल धातु एवं धातु उत्पाद	33M.Basic Metal and Metal Products	2783463.60	645729.68	3429193.28
34एम.1	लौह एवं स्टील	34M.1 Iron and Steel	2325886.31	567825.73	2893712.04
35एम.2	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	35M.2 Other Metal and Metal Products	457577.30	77903.94	535481.24
36एन.	समस्त इंजीनियरिंग	36N.All Engineering	809214.89	870523.44	1679738.34
37एन.1	इलेक्ट्रॉनिक्स	37N.1 Electronics	49336.54	59827.69	109164.23
38एन.2	अन्य इंजीनियरिंग	38N.2 Other Engineering	759878.35	810695.76	1570574.11
39ओ.	वाहन, वाहन पुर्जे और परिवहन उपस्कर	39O.Vehicles,vehicle parts & Transport Equipment	332194.21	23335.32	355529.53
40पी.	जेम्स एवं ज्वैलरी	40P.Gems and Jewelry	272395.36	5661.09	278056.45
41क्यू.	निर्माण	41Q.Construction	1503122.91	1390537.75	2893660.66
42आर.	संरचना	42R.Infrastructure	4390066.74	1328639.18	5718705.92
43आर.1	परिवहन	43R.1 Transport	910096.87	115023.67	1025120.54
44आर.1.1	रेलवे	44R.1.1 Railways	76710.88	2290.61	79001.49
45आर.1.2	सड़क परिवहन	45R.1.2 Roadways	772423.55	101715.69	874139.24
46आर.1.3	विमानन	46R.1.3 Aviation	504.91	898.14	1403.05
47आर.1.4	जल परिवहन	47R.1.4 Waterways	31189.15	7610.00	38799.15
48आर.1.5	अन्य परिवहन	48R.1.5 Others Transport	29268.37	2509.24	31777.60
49आर.2	ऊर्जा	49R.2 Energy	2379653.53	831138.61	3210792.14
50आर.2.1	विद्युत जेन-ट्रान्स-डिस्ट्रीब्यूशन	50R.2.1 Electricity gen-trans--district	2375428.68	655946.26	3031374.94
51आर.2.1.1	इनमें से राज्य बिजली बोर्ड	51R.2.1.1 of which state electricity Board	0.00	0.00	0.00
52आर.2.2	तेल	52R.2.2 Oil	235.20	6.75	241.95



क्रम संख्या Sr No	उद्योग	Industry	निधि आधारित FB Exposure	गैर-निधि आधारित NFB Exposure	कुल Total
53आर.2.3	गैस / एलएनजी (स्टोरेज एवं पाइप लाइन)	53R.2.3 Gas/LNG (STORAGE AND PIPELINE)	3042.86	100023.00	103065.86
54आर.2.4	अन्य	54R.2.4 OTHER	946.78	75162.60	76109.38
55आर.3	टेलिकम्यूनिकेशन	55R.3 TELECOMMUNICATION	604832.11	320729.88	925561.99
56आर.4	अन्य	56R.4 OTHERS	495484.24	61747.01	557231.25
57आर.4.1	जल स्वच्छता	57R.4.1 WATER SANITATION	140254.09	17609.43	157863.52
58आर.4.2	सामाजिक एवं वाणिज्यिक संरचना	58R.4.2 Social and Commercial Infrastructure	80339.59	4190.21	84529.80
59आर.4.3	अन्य	59R.4.3 Others	274890.57	39947.36	314837.93
60एस.	अन्य उद्योग	60S Other Industries	452182.96	153673.39	605856.34
	सभी उद्योग	All Industries	18208430.77	6202965.23	24411396.01
	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	Residuary Other Advances	35321640.20	3473447.00	38795087.20
61टी.1	शिक्षा ऋण	61T.1 Education Loan	296341.48	15242.83	311584.32
62टी.2	विमानन क्षेत्र	62T.2 Aviation Sector	534611.46	268219.27	802830.72
टी.3	अन्य बकाया अग्रिम	T.3 Other residuary Advances	34490687.25	3189984.91	37680672.16
	कुल ऋण एवं अग्रिम	Total Loans & Advances	53530070.97	9676412.24	63206483.21

उद्योगों में ऋण एक्सपोजर, जहां एक्सपोजर बैंक के कुल ऋण एक्सपोजर के 5% (समेकित) से अधिक है, इस प्रकार है,

Credit exposure in industries where exposure is more than 5% of the total credit exposure of the bank (Consolidated) are as follows:

क्रम सं. Sr no	उद्योग Industry	एक्सपोजर (राशि ₹ लाखों में) Exposure (Amt in ₹ Lakhs)	कुल घरेलू एक्सपोजर का % % of Total Domestic Exposure
1	इंफ्रास्ट्रक्चर Infrastructure	5718705.92	9.05%
2	मूल धातु और धातु उत्पाद Basic Metal and Metal Products	3429193.28	5.43%

ई. आस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता का विश्लेषण: (राशि ₹ लाखों में)

e. Residual maturity breakdown of assets: (Amt in ₹ Lakhs)

समयावधि Time Bucket	1 दिन 1 D	2-7 दिन 2-7 D	8-14दिन 8-14 D	15-30 दिन 15-30 D	31-2 माह 31-2 M	2-3 माह 2-3 M	3-6 माह 3-6 M	6-12 माह 6-12 M	1-3 वर्ष 1-3 Y	3-5 वर्ष 3-5 Y	5 वर्ष से अधिक Over 5 Y	कुल TOTAL
सेंट्रल बैंक के पास नकदी एवं शेष Cash and Balance with Central Banks	380180	13079	5728	160062	123335	129689	261064	467039	1072849	231830	904524	3749379
बैंक के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks & Money at call & short notice	2055213	652441	161235	562921	439853	590924	977020	441702	4392	61927	45270	5992896
अग्रिम Advances	651683	1388345	926822	2053694	1891354	1995358	2861647	2741086	18392021	3887141	7004974	43794126
निवेश Investments	4330477	71420	64238	131581	125687	77847	292774	620327	2119884	1888757	7790731	17513723
अचल आस्तियां Fixed assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553228	553228
अन्य आस्तियां Other assets	102307	70694	15083	42538	43734	32736	49434	50653	269282	64974	2435707	3177140
कुल Total	7519860	2195978	1173106	2950795	2623963	2826554	4441937	4320807	21858429	6134629	18734434	74780492



क्रमांक	आस्ति श्रेणी	Sr. No.	Asset Category	राशि ₹ लाख में (कुल) Amount in ₹ Lakhs (Total)
(एफ)	एनपीए (सकल) की राशि	(f)	Amount of NPAs (Gross)	5706025.19
	अवमानक		Substandard	1320637.13
	संदिग्ध 1		Doubtful 1	1126015.47
	संदिग्ध 2		Doubtful 2	1758783.59
	संदिग्ध 3		Doubtful 3	693548.66
	हानि		Loss	807040.34
(जी)	एनपीए (निवल) की राशि	(g)	Amount of NPAs (Net)	2365160.35
	कुल		Total	
(एच)	एनपीए अनुपात	(h)	NPA Ratios	
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए		Gross NPAs to gross advances	12.10%
	निवल अग्रिम में निवल एनपीए		Net NPAs to net advances	5.40%
(आई)	एनपीए (सकल) का मूवमेंट	(i)	Movement of NPA (Gross)	
	प्रारंभिक शेष		Opening balance	4337782.57
	जोड़		Additions	2442293.39
	कमी		Reductions	1074051.74
	अन्तिम शेष		Closing balance	5706024.22
(जे)	विशिष्ट प्रावधान	(j)	Specific Provision	
	प्रारंभिक शेष		Opening balance	2495162.18
	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान		Provision made during the year	1441124.11
	बड़े खाता डालना (कटौती एवं विनिमय अंतर)		Write off (Deduction & Exch Diff)	600558.43
	अंतिम शेष		Closing balance	3335727.86
	ऐसे बड़े खाते जो सीधे ही आय विवरण-पत्र में शामिल किए गए हैं		Write-offs that have been booked directly to income statement	75336.84
	वसूली, जो सीधे ही आय विवरण-पत्र में शामिल की गई हैं		Recoveries that have been booked directly to income statement	59410.11
(के)	सामान्य प्रावधान	(k)	General Provision	
	प्रारंभिक शेष		Opening balance	365245.02
	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान		Provision made during the year	2806.49
	अधिक प्रावधानों का बड़े खाते के डालना गया प्रतिलेखन		Write off / Write-back of excess provisions	37927.59
	क्लोजिंग प्रावधान		Closing Provision	330123.92
	अनर्जक निवेश		Non Performing Investments	
(एल)	अनर्जक निवेश की राशि	(l)	Amount of Non-Performing Investments	194775.10
(एम)	अनर्जक निवेशों हेतु धारित प्रावधानों की राशि	(m)	Amount of provisions held for non-performing investment	142896.10
(एन)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों का मूवमेंट	(n)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	प्रारंभिक शेष		Opening balance	109271.11
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान		Provisions made during the period	80432.31
	बड़ा खाते डालना / अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन		Write off/ Write-back of excess provisions	5027.24
	अंतिम शेष		Closing balance	184676.18
(ओ)	प्रमुख उद्योग या काउंटर पार्टी प्रकार द्वारा	(o)	By major Industry or Counter party type	
	सर्वोच्च 5 उद्योगों की एनपीए राशि		NPA amount of top 5 industries	
	बेसिक मेटल एवं मेटल उत्पाद		Basic Metal & Metal products	975198.95
	आधारभूत संसाधन		Infrastructure	941660.57
	टेक्सटाइल्स		Textiles	333027.12
	खनन एवं उत्खनन		Mining and Quarrying	309681.63
	विमानन क्षेत्र		Aviation Sectors	234499.49
	ii) उपरोक्त पांच उद्योगों के लिए विशिष्ट प्रावधान	ii)	Specific provision of the above mentioned 5 industries	1195803.08

	iii) ए. चालू अवधि में विशिष्ट प्रावधान		iii) a- Specific provisions during the current period	2526.22										
	iii) बी. चालू अवधि में बट्टे खातों में डालना		iii) b- Write offs during the current period	70721.59										
(पी)	विशिष्ट प्रावधानों सहित विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र द्वारा अलग से प्रावधानित सकल एनपीए की राशि	(P)	Amt. of Gross NPAs provided separately by significant geographical areas including specific provisions	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>सकल एनपीए Gross NPA</td> </tr> <tr> <td>घरेलू Dom</td> <td>4818933.97</td> </tr> <tr> <td>घरेलू अनुषंगियां Dom subsidiary</td> <td>18855.51</td> </tr> <tr> <td>अंतरराष्ट्रीय Intl</td> <td>829105.00</td> </tr> <tr> <td>अंतरराष्ट्रीय अनुषंगियां Intl subsidiary</td> <td>39130.71</td> </tr> </table>		सकल एनपीए Gross NPA	घरेलू Dom	4818933.97	घरेलू अनुषंगियां Dom subsidiary	18855.51	अंतरराष्ट्रीय Intl	829105.00	अंतरराष्ट्रीय अनुषंगियां Intl subsidiary	39130.71
	सकल एनपीए Gross NPA													
घरेलू Dom	4818933.97													
घरेलू अनुषंगियां Dom subsidiary	18855.51													
अंतरराष्ट्रीय Intl	829105.00													
अंतरराष्ट्रीय अनुषंगियां Intl subsidiary	39130.71													
	विशिष्ट प्रावधान		Specific Provisions	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>विशिष्ट प्रावधान Specific Provisions</td> </tr> <tr> <td>घरेलू Dom</td> <td>2672280.58</td> </tr> <tr> <td>घरेलू अनुषंगियां Dom subsidiary</td> <td>9738.63</td> </tr> <tr> <td>अंतरराष्ट्रीय Intl</td> <td>627491.00</td> </tr> <tr> <td>अंतरराष्ट्रीय अनुषंगियां Intl subsidiary</td> <td>26217.65</td> </tr> </table>		विशिष्ट प्रावधान Specific Provisions	घरेलू Dom	2672280.58	घरेलू अनुषंगियां Dom subsidiary	9738.63	अंतरराष्ट्रीय Intl	627491.00	अंतरराष्ट्रीय अनुषंगियां Intl subsidiary	26217.65
	विशिष्ट प्रावधान Specific Provisions													
घरेलू Dom	2672280.58													
घरेलू अनुषंगियां Dom subsidiary	9738.63													
अंतरराष्ट्रीय Intl	627491.00													
अंतरराष्ट्रीय अनुषंगियां Intl subsidiary	26217.65													

डीएफ 4 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के तहत पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण

मानकीकृत पद्धति के तहत बैंक घरेलू क्रेडिट एक्सपोजर हेड, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सभी ईसीएआई (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान) यथा सीएआरई, क्रिसिल, फिच (इंडिया), आइसीआरए, स्मेरा (एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि.) एवं के लिए ब्रिक वर्क इंडिया प्रा. लि. की रेटिंग को स्वीकार करता है. विदेशी ऋण एक्सपोजर के लिए बैंक स्टेण्डर्ड एवं पूअर, मूडी एवं फिच की रेटिंग स्वीकार करता है.

बैंक, कार्पोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान (पीएसई) के उधारकर्ताओं को ईसीएआई से रेटिंग लेने को प्रोत्साहित करता है और जहां कहीं ऐसी रेटिंग उपलब्ध है, वहां जोखिम पर आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंगों का उपयोग करता है. निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों में मानकीकृत पद्धति (मूल्यांकित और गैर-मूल्यांकित) के अनुसार जोखिम कम करने के पश्चात, जोखिम राशि का बकाया शेष इस प्रकार हैं.

DF 4. Credit Risk : Disclosures for Portfolios Subject to the Standardized Approach

Under Standardized Approach the bank accepts rating of all RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) namely CARE, CRISIL, Fitch (India), ICRA, SMERA (SME Rating Agency of India Ltd.) and Brickwork India Pvt Ltd for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the bank accepts rating of Standard & Poor, Moody's and Fitch.

The bank encourages Corporate and Public Sector Entity (PSE) borrowers to solicit credit ratings from ECAI and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available. The exposure amounts after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

जोखिम भार की श्रेणी	Category of Risk Weight	कुल (राशि ₹ लाखों में) TOTAL (Amt in ₹ Lakhs)
100% जोखिम भार से कम	Below 100% risk weight	3,41,16,369.44
100% जोखिम भार	100% risk weight	1,72,40,459.16
100% जोखिम भार से अधिक	More than 100 % risk weight	49,09,925.87
सीआरएम कटौती*	CRM Deducted*	69,39,728.74
कुल एक्सपोजर (एफ बी+एन एफ बी)	Total Exposure (FB+NFB)	6,32,06,483.21

* एनपीए खातों के मामले में, किये गये प्रावधान भी विचारार्थ लिये जायेंगे.

*In case of NPA account, provisions made is also considered



डीएफ 5. अग्रिम जोखिम न्यून करण : मानकीकृत पद्धति का प्रकटीकरण

ए. बैंक अपने उधारकर्ताओं पर एक्सपोजर (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित) को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां (जो कि संपार्श्विक रूप में भी हो सकती है) प्राप्त करते हैं. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ अग्रिम जोखिम न्यून करने के बारे में एक्सपोजर में कमी की नीति को अपनाया है. जहां कहीं कार्पोरेट गारंटी अग्रिम जोखिम न्यून करने के रूप में उपलब्ध है, अग्रिम जोखिम उपलब्ध गारंटी की सीमा तक गारंटीदाताओं को अंतरित किया जाता है. सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभूतियां (मुख्य प्रतिभूतियां अथवा संपार्श्विक प्रतिभूतियां) ली जाती हैं.

1. स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियां.
2. भूमि, बिल्डिंग, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल आस्तियां.
3. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर
4. बैंक की स्वाधिकृत जमाशियां.
5. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, एलआइसी पॉलिसियां, केन्द्रीय/राज्य सरकारों आदि द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां इत्यादि
6. ऋण प्रतिभूतियां - कतिपय शर्तों के साथ क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा अनुमोदित
7. ऋण प्रतिभूतियां - रेटिंग नहीं की गई कतिपय शर्तों के साथ एक बैंक द्वारा जारी
8. म्यूचुअल फंडों की यूनिटें
9. गैर निधि आधारित सुविधाओं के पेटे नकदी मार्जिन.
10. स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण

बैंक के पास, बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के संबंध में बेहतर नीति उपलब्ध है.

ऋण जोखिम हेतु बासेल-II मानकीकृत पद्धति तहत ऑन-बैलेंस शीट नेटिंग हेतु ऋण जोखिम न्यूनकरण के रूप में मान्यता-प्राप्त है, बासेल-II मानदंडों मापक दृष्टिकोण के अनग्रहि सहित ऊपर क्रम संख्या 4 से 10 पर उल्लिखित प्रतिभूतियां .

बैंक के ऋण जोखिम के एवज में गारंटीदाताओं के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं:

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटियां)
- कार्पोरेट्स / पी एस ई
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- ईसीजीसी
- सीजीटीएमएसई

केन्द्रीय/राज्य सरकार, ईसीजीसी, सीजीटीएमएसई, बैंक व कार्पोरेट पर एक्सपोजर्स के संबंध में पात्र गारंटर (बासेल III के अनुसार) काउंटर पार्टी की अपेक्षा कम जोखिम भार के साथ सीआरएम के रूप में उपलब्ध हैं.

DF 5. Credit risk mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

(a) Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as Non-Fund based) on its borrowers. Bank has adopted reduction of exposure in respect of certain credit risk mitigant, as per RBI guidelines. Wherever corporate guarantee is available as credit risk mitigant, the credit risk is transferred to the guarantor to the extent of guarantee available. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
3. Shares as per approved list
4. Bank's own deposits
5. NSCs, KVPs, LIC policies, Securities issued by Central & State Governments etc.
6. Debt securities - rated by approved credit rating agency- with certain conditions
7. Debt securities- not rated- issued by a bank- with certain conditions
8. Units of Mutual funds
9. Cash Margin against Non-fund based facilities
10. Gold and Gold Jewelry.

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank.

The securities mentioned at Sr. No. 4 to 10 above are recognized as Credit Risk Mitigants for on-balance sheet netting under Basel-II standardized approach for credit risk, following Comprehensive Approach of Basel II norms.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate/PSEs
- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGTMSE

Eligible guarantors (as per Basel-III) available as CRM in respect of exposures on Central/ State Government, ECGC, CGTMSE, Banks & Corporates with a lower risk weight than the counter party.

ए. प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर, जो कि पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया गया है, मार्जिन को लगाने के पश्चात निम्नानुसार है:

A. For each credit risk portfolio, total exposure that is covered by eligible financial collateral, after application of haircut is as under:

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

ऋण जोखिम पोर्टफोलियो	Credit Risk Portfolio	कुल / Total
देशी सॉवरेन	Domestic Sovereign	391.40
विदेशी सॉवरेन	Foreign Sovereigns	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	Public Sector Entities	28614.26
एमडीबीएस, बीआइएस एवं आइएमएफ	MDBS, BIS and IMF	0.00
बैंकों पर दावे	Claims on Banks	91525.41
प्राथमिक डीलर्स	Primary Dealers	0.00
कॉर्पोरेट	Corporate	1768961.40
क्षेत्रीय रिटेल संविभाग	Regulatory Retail Portfolio	770481.58
आवासीय संपत्ति	Residential Property	8291.89
वाणिज्यिक रियल इस्टेट	Commercial Real Estate	15641.08
विनिर्दिष्ट श्रेणियां	Specified Categories	411317.56
अन्य आस्तियां	Other Assets	5693.39
कुल	TOTAL	3100917.97

डीएफ 6. प्रतिभूतीकरण

ए. बैंक की प्रतिभूति नीति है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। नीति के अनुसार प्रतिभूत किये जाने वाले संविभाग की प्रकृति रिटेल ऋण (आवास ऋण, ऑटो ऋण, परिसंपत्तियों के पेटे अग्रिम, वैयक्तिक ऋण तथा प्रेडिक्ट कार्ड्स) एसएसआई एवं आधारभूत परियोजना ऋण हैं।

बी. दिनांक 31 मार्च, 2018 को बैंक के पास अपनी आस्तियों को प्रतिभूत करने का कोई मामला नहीं है।

प्रतिभूतीकरण के संबंध में प्रतिधारित एक्सपोजर का कोई मामला नहीं है।

बैंक द्वारा खरीदे गए प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की राशि निम्नानुसार है:

DF 6. Securitization:

a. The Bank has a Securitization Policy duly approved by its Board. As per the Policy the nature of portfolio to be securitized are retail loans (housing loans, auto loans, and advance against properties, personal loans and credit cards) SSI and Infrastructure projects loans.

b. The Bank does not have any case of its assets securitized as on 31st March 2018.

There is no case of retained exposure in respect of securitization

Amount of securitization exposure purchased by the bank is as under: -

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

बाह्य ऋण रेटिंग के अनुसार जोखिम भार श्रेणी Risk weight category as per external credit rating	बही मूल्य Book value	बैंकिंग बुक के अन्तर्गत रखी गयी राशि Amt held under banking book	जोखिम भार % RW %	जोखिम समायोजित मूल्य Risk adjusted value
कुल/ Total				शून्य/NIL

डीएफ 7. व्यापार बही में बाजार जोखिम :

बैंक बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है। व्यापार बही में बाजार जोखिम के तहत निम्नलिखित जोखिम का प्रबंधन किया जाता है:

- ब्याज दर जोखिम
- मुद्रा जोखिम
- मूल्य जोखिम

DF 7. Market risk in trading book:

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices. The following risks are managed under Market Risk in trading book:

- Interest Rate Risk
- Currency Risk
- Price risk



जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं निर्धारित की हैं जैसे सकल निपटान सीमाएं, हानिरोधक सीमाएं, और मूल्य जोखिम सीमाएं. जोखिम सीमाएं, खुली बाजारगत स्थितियों से उत्पन्न जोखिमों को नियंत्रित करती हैं. हानिरोधक सीमा, वसूलीकृत और अवसूलीकृत हानियों को ध्यान में लेती है.

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए एक समुचित पद्धति तैयार की है यथा मानकीकृत अवधि पद्धति. इस प्रकार आकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है. ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को बासेल-III के अन्तर्गत बैंक के सीआरएआर निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है.

दिनांक 31 मार्च 2018 को बाजार जोखिम (मानकीकृत अवधि पद्धति के अनुसार) संबंधी पूंजी प्रभार तथा जोखिम भारित आस्तियां निम्नानुसार हैं.

		न्यूनतम पूंजी प्रभार (राशि लाखों में) Minimum Capital requirement (Amt in Lakhs)
ब्याज दर जोखिम	Interest Rate Risk	167482.45
इक्विटी स्थिति जोखिम	Equity Position Risk	6515.67
विदेशी मुद्रा जोखिम	Foreign Exchange Risk	93945.98
कुल पूंजी प्रभार	Total Capital Charge	267944.10

डीएफ 8. परिचालन जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए आधारभूत सूचक पद्धति अपनायी है. मूल सूचक पद्धति के अन्तर्गत गत 3 वर्षों की औसत आय को जोखिम भारित आस्ति की संगणता हेतु प्रयुक्त जायेगा.

डीएफ 9. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ए. ब्याज दर जोखिम को दो पद्धतियों के माध्यम से निर्धारित व निगरानी किया जाता है.

(i) जोखिम पर अर्जन (पारंपरिक अन्तर विश्लेषण) (अल्पावधि): इस पद्धति के तहत ब्याज दरों में परिवर्तनों का बैंक की निवल ब्याज आय पर पड़ने वाले तत्काल प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है. जोखिम पर अर्जन को विभिन्न परिदृश्यों में निम्नानुसार विश्लेषित किया जाता है.

1. अर्जन रेखा जोखिम : आस्तियों और देयताओं के लिए 1% समानांतर परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है.
2. आस्तियों के लिए श्रेणी-वार भिन्न अर्जन परिवर्तनों का अनुमान लगाया गया है और ये देयताओं पर भी लागू होते हैं.
3. ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुसार आधार जोखिम एवं समाहित विकल्प जोखिम का अनुमान लगाया गया है.

(ii) इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घावधि) यह कार्य आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि की अलग-अलग गणना करके किया जाता है ताकि इक्विटी की संशोधित अवधि का निर्धारण किया जा सके.

- इस पद्धति को अर्जन में दिए परिवर्तन हेतु अर्जन रेखा में समान्तर शिफ्ट माना जाता है.
- इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को जैसा भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्लेषित किया है, नियमित अंतरालों पर 200 आधार अंकीय दर हेतु विश्लेषित किया जाता है.

To manage risk, Bank's Board has laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits help to check the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes in to account realized and unrealized losses.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardized Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregate Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken into consideration for calculating the Bank's CRAR under Basel-III

Risk Weighted Assets and Capital Charge on Market Risk (as per Standardized Duration Approach) as on 31st March' 2018 are as under:

DF 8. Operational risk

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk. Under Basic Indicator Approach, average income of last 3 years is taken into consideration for arriving at Risk Weighted Assets.

DF 9. Interest rate risk in the Banking Book (IRRBB)

a. The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.

The Earning at Risk is analyzed under different scenarios:

1. Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.
2. Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.
3. Basis risk and embedded option risk are assumed as per historical trend.

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

Modified duration of assets and liabilities is computed separately to finally arrive at the modified duration of equity.

- This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the yield.
- Impact on the Economic Value of Equity is also analyzed for a 200 bps rate shock as required by RBI.

- संबंधित परिपक्वता के लिए बाजार सहबद्ध अर्जन को संशोधित अवधि की गणना में प्रयुक्त किया जाता है।

बैंकिंग बहियों में बैंक के ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) का विश्लेषण दोनों घरेलू तथा विदेशी परिचालनों के लिए किया जाता है। घरेलू परिचालनों के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य का आकलन तथा निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है।

- बी. ब्याज दर शॉक में परिवर्तन हेतु आर्थिक मूल्य और अर्जन में वृद्धि (कमी) निम्नानुसार हैं:
- (i) जोखिम पर अर्जन: ब्याज दरों में 200 बेसिस प्वाइंट्स की वृद्धि के कारण एक वर्ष तक की अवधि के लिए दिनांक 31 मार्च 2018 को ब्याज की संवेदनशील स्थिति के संबंध में ब्याज दरों में हुए परिवर्तन की निवल ब्याज आय पर प्रभाव को निम्न सारणी में दिया गया है :

- Market linked yields for respective maturities are used in the calculation of the Modified Duration.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both Domestic as well as Overseas Operations. The Economic value of equity for Domestic Operations is measured and monitored on a quarterly basis.

- b. The increase (decline) in earnings and economic value for change in interest rate shocks are as under:-
- (i) Earning at Risk: The following table sets forth the impact on the net interest income of changes in interest rates on interest sensitive positions as on 31st March 2018, for a period of one year due to 200 basis point upward movement in the interest rate:

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

मुद्रा	Currency	ब्याज दरों में 200 बेसिस प्वाइंट्स वृद्धि 200 Basis point upward movement in the interest rates
आई एन आर	INR	120113.47
यूरो	EUR	-327.67
जीबीपी	GBP	11125.14
यूएसडी	USD	38510.86
शेष	Rest	14597.33

- ii) निम्न सारणी ब्याज दर में 200 आधार प्वाइंट अपवर्ड संचलन के कारण एक वर्ष की अवधि के लिए 31 मार्च 2018 को ब्याज दरों की संवेदनशील स्थिति के संबंध में ब्याज दरों में हुए परिवर्तन के निवल ब्याज आय पर प्रभाव को दर्शाता है:

- (ii) The following table sets forth the impact on the net interest income of changes in interest rates on interest sensitive positions as on 31st March 2018, for a period of one year due to 200 basis point upward movement in the interest rate:

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

मुद्रा	Currency	ब्याज दरों में 200 बेसिस प्वाइंट्स की वृद्धि के कारण इक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन Change in Market Value of Equity due to 200 basis point upward movement in interest rate.
आई एन आर	INR	-468176.16
यूरो	EUR	3084.71
जीबीपी	GBP	14683.50
यूएसडी	USD	-22430.01
शेष	Rest	-7320.76

डीएफ 10. प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

(ए) प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान से पहले अपना संव्यवहार पूरा कर लेता है। यह डेरीवेटिव तथा प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार लोन के माध्यम से ऋण जोखिम के संबंध में बैंक का एक्सपोजर के समान ही जहां ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर एक पक्षीय है और इसमें उधार देने वाला बैंक हानि-जोखिम का सामना करता है, प्रतिपक्षी ऋण जोखिम द्विपक्षीय है अर्थात् संव्यवहार का बाजार मूल्य प्रतिपक्षी संव्यवहार से इतर पॉजीटिव या निगेटिव हो सकता है और बाजार घटकों के संचलन के साथ ही भिन्न हो सकता है।

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियों में सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिलक्षित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है।

DF 10. General Disclosures for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

(a) Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.



बैंक अपने ग्राहकों को डेरीवेटिव उत्पादों के समान ही बहुत से उत्पाद ऑफर करता है ताकि वे ब्याज दर तथा मुद्रा संबंधी अपनी एक्सपोजर के साथ लेन-देन कर सकें और डेरीवेटिव के लिए प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक मार्जिन अर्जित कर सकें. सभी ओवर द काउंटर डेरीवेटिव प्रतिपक्षी ऋण जोखिम की ओर ले जाते हैं, जिन्हें नियमित अंतराल पर बैंक मॉनीटर करता है. इन संव्यवहारों के लिए मार्जिन ऋण जोखिम की गुणवत्ता और मात्रा साथ ही इक्विटी पर वांछित प्रति लाभ को हिसाब में लिया जाता है.

बैंक का प्रतिपक्षी ऋण जोखिम, प्रतिपक्षी ऋण जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है. बैंक किसी पार्टी को डेरीवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित करता है कि सभी गुणवत्ताओं - अर्थात केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण संव्यवहारों, पार्टी की ऋण पात्रता का पालन किया जाए और फिर तदनुसार संव्यवहार में अपेक्षित ऋण जोखिम कमी का निर्णय करता है.

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम को कम करने तथा की निगरानी करने के लिए, कार्पोरेट को दिए गए शेष डेरीवेटिव संव्यवहारों की निगरानी मासिक आधार पर की जाती है, और बैंक की तिमाही आधार पर.

बी. मात्रात्मक प्रकटीकरण

बैंक द्विपक्षीय समायोजन को मान्यता प्रदान नहीं करता है. डेरीवेटिव एक्सपोजर की गणना वर्तमान एक्सपोजर मैथड (सीईएम) के आधार पर की जाती है तथा 31.03.2018 को बकाया शेष नीचे दिया जा रहा है:-

Bank offers many products like derivative products to customers to enable them to deal with their exposures to interest rate and currencies and to earn a margin over the ruling market price for the derivative. All over-the-counter derivative leads to counterparty credit exposures which bank monitors on a regular basis. The margin loaded for these transactions also take into account of the quality and quantity of the credit risk, and the desired return on equity.

The Banks exposure to counterparty credit Risk is covered under its Counterparty Credit Risk Policy. Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party and accordingly decides the level of credit risk mitigation required in the transaction.

To mitigate and monitor the counter party credit exposure, the outstanding derivative transactions to corporate are monitored on a monthly basis and that to the Banks on quarterly basis.

b. Quantitative Disclosures

The Bank does not recognize bilateral netting. The derivative exposure is calculated using Current Exposure Method (CEM) and the balance out standing as on 31.03.2018 is given below:

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

विवरण	Particulars	कल्पित राशि Notional Amounts	वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर (सीईएम के तहत) Current Credit Exposure(under CEM)
वायदा फॉरेक्स संविदा (14 दिन या उससे कम)	Forward forex Contracts(less than or equal to 14 days)	2566415.51	57429.51
वायदा फॉरेक्स संविदाएं (14 दिन से अधिक)	Forward forex Contracts(over 14 days)	13107975.00	411184.00
मुद्रा फ्यूचर	Currency Future	0.00	0.00
मुद्रा विकल्प	Currency Options	637868.00	9820.00
ब्याज दर फ्यूचर	Interest rate future	0.00	0.00
पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर की अदला - बदली	Cross Currency Interest Rate Swap	188507.00	15452.00
एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला - बदली	Single Currency Interest Rate Swap	2462442.00	35193.00

सारणी डीएफ-11- पूंजी संयोजन
Table DF – 11: Composition of Capital

31 मार्च 2017 से उपयोग में लाए जाने वाले बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

 Basel III common disclosure template used from 31st March 2017

(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

क्र.सं. Sr. No	मद	Items	पात्र राशि Eligible Amt	बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	संदर्भ सं. (चरण 2 से) Ref No. (From Step 2)
	सामान्य ईक्विटी टायर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रारक्षित निधियां	Common Equity Tier 1 Capital : instruments and reserves			
1	प्रत्यक्षतः जारी की गई विशेषक सामान्य शेयर पूंजी तथा संबद्ध स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	166233.02		ए+डी A+D
2	संबद्ध अर्जन	Retained Earnings	248027.15		बी+ई+एफ+(75% एच)+ तिमाही हेतु जे -लाभ ₹ 938.40 मिलियन के अल्प शेयर सहित B+E+F+I+(75%H)+ Includes Minority share of Rs 938.40 million of J-Profit for the quarter
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य प्रारक्षित निधि)	Accumulated other comprehensive income (and other reserve)	28739.77		सी(घटाएं) पुनर्मूल्यांकन रिजर्व+ पुनर्मूल्यांकन रिजर्व का 45% C (less) Revaluation reserve (Rs. 31862.75 million)+ 45% of Revaluation Reserve (Rs 31862.75 million)
4	प्रत्यक्षतः जारी की गई पूंजी जो चरणबद्ध रूप से सीईटी 1 के अधीन है. (केवल गैर-सहयोगी स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)			
	सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजीगत अभिदान को 1 जनवरी, 2018 तक संरक्षण	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018			
5	अनुषंगियों द्वारा जारी की गई तथा तृतीय पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी. (समूह सीईटी 1 में अनुमत प्राप्त राशि)	Common Share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)			
6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य ईक्विटी टायर-1 पूंजी	Common Equity Tier 1 Capital before regulatory adjustment	442999.95	0.00	
	सामान्य ईक्विटी टायर-1 पूंजी: विनियामक समायोजन	Common Equity Tier 1 Capital : regulatory adjustment			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	Purdential Valuation Adjustment			



(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

क्र.सं. Sr. No	मद	Items	पात्र राशि Eligible Amt	बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	संदर्भ सं. (चरण 2 से) Ref No. (From Step 2)
8	साख (संबद्ध कर देयता का निवल)	Goodwill (net of realted tax liability)			
9	बंधक के अलावा अमूर्त-सेवा अधिकार (कर देयता का निवल)	Intangibles other than mortgage-service rights (net of tax liability)			
10	आस्थगित कर आस्तियां	Deferred tax assets	19250.10		
11	नकदी प्रवाह बचाव प्रारक्षित निधि	Cash-flow hedge reserve			
12	अनुमानित हानि हेतु कमी के लिए प्रावधान	Shortfall of provision to expected loss			
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ.	Securitisaton Gain on sale			
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि	Gains & losses due to changes in own credit risk on fair values liabilities			
15	परिभाषित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	Defined-benefit pension fund net assets			
16	निजी शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में चुकता पूंजी का समायोजन पहले से न किया हो.)	Investment in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balamce sheet)	0.80		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस धारिता	Reciprocal cross holdings in common equity	271.60	0.00	{पी का भाग} {PART OF P}
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन क्षेत्र, पात्र अधिक बिक्रय की स्थिति से बाहर हैं जहां जारी की गई शेयर पूंजी से बैंक की हिस्सेदारी 10% से अधिक नहीं है. (प्रारंभ में 10% से अधिक राशि)	Investment in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)			
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो विनियामक समेकन क्षेत्र, पात्र अधिक बिक्रय की स्थिति के निवल से बाहर है. (प्रारंभ में 10% से अधिक की राशि)	Significant investment in the common stock of banking financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short position (amount above 10% threshold)	0.00	0.00	आर का भाग PART OF R
20	बंधक सेवा (सर्विसिंग) अधिकार (प्रारंभ में 10% से अधिक की राशि)	Mortgage servicing rights (amount avove 10% threshold)			
21	अस्थाई अंतरों से होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (प्रारंभ में 10% से अधिक की राशि संबंधित कर देयता का निवल)	Deferred tax assets arising from temporary diffrences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)			
22	प्रारंभिक 15% से अधिक राशि.	Amount exceeding the 15% threshold			
23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश.	of which : significant investments in the common stock of financial entities			

(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

क्र.सं. Sr. No	मद	Items	पात्र राशि Eligible Amt	बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	संदर्भ सं. (चरण 2 से) Ref No. (From Step 2)
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार.	of which : mortgage servicing rights			
25	जिसमें से: अस्थाई अंतरों से होने वाली आस्थगित कर देयता.	of which : deferred tax assets arising from temporary differences			
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए + 26बी + 26सी + 26डी)	National specific regulatory adjustment (26a + 26b + 26c + 26d)			
26a	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों का ईक्विटी पूंजी में निवेश	of which : Investment in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00	आर का भाग PART OF R
26b	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश.	of which : Investment in the Equity Capital of the unconsolidated non- financial subsidiaries			
26c	जिसमें से: बहुत सी निजी वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक में समेकित नहीं हुई है.	of which : Shortfall in the Equity Capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
26d	जिसमें से: अशोधित पेंशन निधि व्यय	of which : Unamortised pension funds expenditure			
27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टीयर 1 तथा टीयर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टीयर 1 के संबंध में विनियामक समायोजन किया गया	Regulatory adjustment applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Tier 1 and Tier 2 to cover deduction			
28	सामान्य ईक्विटी-1 टियर-1 के लिए कुल विनियामक समायोजन.	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	19552.50	0.00	
29	सामान्य ईक्विटी-टियर 1 पूंजी (सीईटी-1)	Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	423477.45		
	अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी: लिखत.	Additional Tier 1 capital : instruments			
30	प्रत्यक्षत: जारी किए गए सापेक्ष अतिरिक्त टीयर-1 लिखत तथा संबद्ध स्टॉक अधिशेष (31 + 32)	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31 + 32)	39676.60		
31	जिसमें से: लागू लेखा मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं. (पीएनसीपीएस)	of which : classified as equity under applicable accounting standards (PNCPS)			
32	जिसमें से: लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं. (शाश्वत ऋण लिखत)	of which : classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual Debt Instruments)	39676.60	0.00	
33	फेज आउट फॉर्म- अतिरिक्त टियर-1 के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पूंजीगत लिखत.	Directly issued capital instruments subject to phase out form Additional Tier 1	11470.20	28675.50	टी (ग्रैंडफादरिंग के पश्चात)+ यू का भाग T (AFTER GRAND FATHERING)+ Part of U



(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

क्र.सं. Sr. No	मद	Items	पात्र राशि Eligible Amt	बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	संदर्भ सं. (चरण 2 से) Ref No. (From Step 2)
34	अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (राशि की अनुमति समूह एटी-1 में की गई है) अतिरिक्त टियर-1 लिखत (तथा सीईटी-1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं.)	Additional Tier 1 instruments (and Cet 1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)			
35	जिसमें से: फेज आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी की गई राशि	of which : amount issued by subsidiaries subject to phase out			
36	विनियामक समायोजन के पहले अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustment	51146.80	28675.50	
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	Investments in own Additional Tier 1 instruments			
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	1103.60	0.00	{PART OF Q+S}
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं जो विनियामक समेकन क्षेत्र से बाहर है तथा जहां बैंक की हिस्सेदारी जारी की गई संस्था की सामान्य शेयर पूंजी में 10% से अधिक नहीं है, की पूंजी में निवेश (प्रारंभ में 10% से अधिक राशि)	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)			
40	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है, में महत्वपूर्ण निवेश. (पात्र शॉर्ट पोजीशन का निवल)	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short position)	0.00	0.00	Part of R
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	National specific regulatory adjustment (41a+41b)			
41a	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 की पूंजी में निवेश	of which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries			
41b	अधिकतर निजी वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 की पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है.	of which : Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लागू किए गए विनियामक समायोजन	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions			
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के लिए कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	1103.60	0.00	

(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

क्र.सं. Sr. No	मद	Items	पात्र राशि Eligible Amt	बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	संदर्भ सं. (चरण 2 से) Ref No. (From Step 2)
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1) पूंजी	Additional Tier 1 capital (AT1) capital	50043.20		
44a	पूंजी पर्याप्तता हेतु अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1) की गणना	Additional Tier 1 capital (AT1) reckoned for capital adequacy	50043.20		
45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1)	Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1)	473520.65		
46	प्रत्यक्षतः जारी किए सापेक्ष टियर 2 लिखत तथा संबद्ध स्टॉक अधिशेष	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	13000.00		
47	प्रत्यक्षतः जारी किए गए पूंजीगत लिखत जो फेज आउट टियर 2 के अधीन है	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	21000.00	550000.00	टी का भाग (ग्रेंड फादरिंग के पश्चात) + वी PART OF T (After Grandfathering) + V
48	टियर 2 लिखत (तथा सीईटी1 व एटी1 लिखत - जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए हैं) अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए तथा तृतीय पक्ष द्वारा धारित (राशि की अनुमति ग्रुप टियर 2 में दी गई है).	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)			
49	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए लिखत फेज आउट के अधीन	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
50	प्रावधान	Provisions	33251.00		जी एवं अन्य प्रावधान G and other Provisions
51	टियर 2 - पूंजी विनियामक समायोजन से पहले	Tier 2 capital before regulatory adjustments	67251.00		
52	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश	Investments in own Tier 2 instruments			
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	100.09	0	{क्यू + एस का भाग} {PART OF Q+S}
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, नियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं. जहां संस्था की जारी की गई सामान्य शेयर पूंजी से बैंक की हिस्सेदारी 10% से अधिक नहीं हैं. (प्रारंभ में 10% से अधिक राशि)	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)			
55	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश, जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है (पात्र शॉर्ट स्थिति का निवल)	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)			



(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

क्र.सं. Sr. No	मद	Items	पात्र राशि Eligible Amt	बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	संदर्भ सं. (चरण 2 से) Ref No. (From Step 2)
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	National specific regulatory adjustments (56a+56b)			
56a	जिसमें से : असमेकित अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00	0.00	आर का भाग PART OF R
56b	जिसमें से : अपनी निजी पूर्ण वित्तीय संस्थाओं की टियर 2 पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank			
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	100.09		
58	टियर 2 पूंजी	Tier 2 capital	67150.91		
59	कुल पूंजी (कुल पूंजी = टी1 + टी2) (45 + 58 सी)	Total Capital (TC=T1+T2)(45+58c)	540671.56		
60	कुल जोखिम भारत आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	4201810.45		
60a	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारत आस्तियां	of which: total credit risk weighted assets	3613897.39		
60b	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारत आस्तियां	of which: total market risk weighted assets	246385.38		100
60c	जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारत आस्तियां	of which: total operational risk weighted assets	341527.68		
	पूंजी अनुपात	Capital ratios			
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	10.08%		
62	टियर 1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.27%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	12.87%		
64	संस्था विशेष की बफर आवश्यकता (जोखिम भारत आस्तियों की प्रतिशत के रूप में प्रकटित न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता)	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	0.00		
65	जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	of which: capital conservation buffer requirement (as a percentage of risk weighted assets)	1.875%		

(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

क्र.सं. Sr. No	मद	Items	पात्र राशि Eligible Amt	बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	संदर्भ सं. (चरण 2 से) Ref No. (From Step 2)
66	जिसमें से : बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00		
67	जिसमें से : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	of which: G-SIB buffer requirement	0.00		
68	बफर को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.00		
	राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर (यदि बासेल III से भिन्न हो)	National minima (if different from Basel III)			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	0.00		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	0.00		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो)	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	0.00		
	कटौती के लिए निर्दिष्ट सीमारेखा से नीचे की राशि (जोखिम भारिता से पहले)	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00		
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00		
74	बंधक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयताओं का निवल)	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00		
75	अस्थायी अंतरों से निकली आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयताओं का निवल)	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00		
	टियर 2 में प्रावधानों के समावेश पर लागू उच्चतम सीमा	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	मानकीकृत पद्धति के एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में समावेश के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा के लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	33251.00		
77	मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के समावेश की उच्चतम सीमा (3613897.39 का 1.25%)	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach (1.25% of 3613897.39)	45173.72		



(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

क्र.सं. Sr. No	मद	Items	पात्र राशि Eligible Amt	बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments	संदर्भ सं. (चरण 2 से) Ref No. (From Step 2)
78	आंतरिक रेटिंग आधारित पद्धति के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में समावेश के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा के लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	लागू नहीं NA		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित पद्धति के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन के लिए उच्चतम सीमा	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	लागू नहीं NA		
	हटाने की व्यवस्था के अधीन पूंजीगत लिखत (केवल 31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2022 के बीच लागू)	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	हटाने की व्यवस्था के अधीन सीईटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	शून्य NIL		
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अपर अतिरिक्त)	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	शून्य NIL		
82	हटाने की व्यवस्था के अधीन एटी 1 लिखतों में वर्तमान उच्चतम सीमा	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	51146.80		
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अपर अतिरिक्त)	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	11470.20		
84	हटाने की व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	34000.00		
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अपर अतिरिक्त)	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	21000.00		

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements



सारणी डीएफ-12: पूंजी का संयोजन- समाधान आवश्यकताएं:

(राशि मिलियन ₹ में) (Amt ₹ in Million)

विवरण	Particulars	वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र
		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		31.03.2018	31.03.2018
ए पूंजी एवं देयताएं	A Capital & Liabilities		
i प्रदत्त पूंजी	i Paid-up Capital	5303.64	0
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	460358.69	0
अल्प हित	Minority Interest	2725.24	0
कुल पूंजी	Total Capital	468387.57	0
ii जमाराशियां	ii Deposits	6074513.65	0
जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	of which: Deposits from banks	362194.26	0
जिसमें से : ग्राहक जमाराशियां	of which: Customer deposits	5712319.39	0
जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0
जिसमें से : भारत में स्थित शाखाओं से जमाराशियां	of which: Deposit from branches in India	4741828.58	
जिसमें से : भारत से बाहर स्थित शाखाओं से जमाराशियां	of which: Deposit from branches outside India	1332685.07	
iii उधार	iii Borrowings	648598.17	0
जिसमें से : भा.रि.बैं. से	of which: From RBI	0.00	0
जिसमें से : बैंकों से	of which: From banks	265290.00	0
जिसमें से: अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies	76880.48	0
जिसमें से : भारत से बाहर उधार	of which: borrowing outside India	122838.57	0
जिसमें से : पूंजीगत लिखत	of which: Capital instruments	183589.13	0
iv अन्य देयताएं एवं प्रावधान	iv Other liabilities & provisions	286549.80	0
कुल	Total	7478049.19	0
बी आस्तियां	B Assets		
i भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष	i Cash and balances with Reserve Bank of India	240349.89	0
बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	Balance with banks and money at call and short notice	733877.58	0
ii निवेश :	ii Investments:	1751372.28	0
जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities	1520849.23	0
जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities	28620.85	0
जिसमें से: शेयर	of which: Shares	26887.87	0
जिसमें से: डिबेंचर एवं बांड	of which: Debentures & Bonds	87154.73	0



(राशि मिलियन ₹ में) (Amt ₹ in Million)

विवरण	Particulars	वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र
		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		31.03.2018	31.03.2018
जिसमें से: अनुषंगिया/ संयुक्त उद्यम/ सहायक इकाइयां	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	9684.93	0
जिसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पेपर्स, म्युचुअल फंड इत्यादि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	78174.68	0
iii ऋण एवं अग्रिम	iii Loans and advances	4379412.60	0.00
जिसमें से : बैंक को ऋण एवं अग्रिम	of which: Loans and advances to bank	535608.14	0
जिसमें से : ग्राहक को ऋण एवं अग्रिम	of which: Loans and advances to customer	3843804.46	0
iv अचल आस्तियां	iv Fixed assets	55322.81	0.00
v अन्य आस्तियां	v Other assets	317714.03	0
जिसमें से: साख एवं अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets	254191.41	0
जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets	63522.63	0
vi समेकन संबंधी साख	vi Goodwill on consolidation	0.00	0
vii लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	vii Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0
कुल आस्तियां	Total Assets	7478049.19	0

चरण / Step: 2

(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

विवरण	Particulars	वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र	संदर्भ सं. Ref. No.
		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		31.03.2018	31.03.2018	
ए पूंजी एवं देयताएं	A Capital & Liabilities			
i प्रदत्त पूंजी	i Paid-up Capital	5303.64	0	
जिसमें से: सीईटी1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for CET1	5303.64	0	ए / A
जिसमें से: एटी1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for AT1	0.00	0	
ii आरक्षित एवं अधिशेष	ii Reserves & Surplus	460358.69	0	
अनुसूची सांविधिक आरक्षित निधि	Schedule STATUTORY RESERVE	96716.15	0	बी/ B

(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

	विवरण		Particulars	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन-पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	संदर्भ सं. Ref. No.
				31.03.2018	31.03.2018	
2	पूँजी आरक्षित निधि	2	CAPITAL RESERVE	46264.28	0	सी/ C
	शेयर प्रीमियम		SHARE PREMIUM	160929.38	0	डी/ D
	सामान्य आरक्षित निधि		General Reserve	0.00	0	
	आई.टी. अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii)(ए) के अंतर्गत विशेष आरक्षित		Special Reserves u/s 36(i)(viii) (a) of I.T.Act,1961	0.00	0	
	आई.टी. अधिनियम की धारा 36 (I) (VIII) के अंतर्गत विशेष आरक्षित		Special Reserve u/s 36(I)(VIII) of I.T. act	47888.83	0	ई/ E
	राजस्व तथा अन्य आरक्षित		Revenue & other reserve	78744.63	0	एफ/ F
	निवेश आरक्षित खाता		Investment reserve account	1304.63		जी/ G
	विदेशी मुद्रा परिवर्तन प्रारक्षित निधि		Foreign Currency Translation Reserve	19088.16	0	एच/ H
	अनाबंटित लाभ		Unallocated Profit	9422.62	0	आय/ I
	अल्प शेयर		Minority Share	2725.24		जे/ J
	कुल पूँजी		Total Capital	465662.33	0	
ii	जमाराशियां	ii	Deposits	6074513.65	0	
अनुसूची	बैंक से मांग जमा	Schedule	Demand Deposit from Bank	12041.00	0	
3	अन्य से मांग जमा	3	Demand Deposit from Others	460485.61	0	
	बचत बैंक जमा		SAVINGS BANK DEPOSITS	1691677.41	0	
	बैंकों से मीयादी जमा		Term Deposit from banks	350153.26	0	
	अन्य से मीयादी जमा		Term Deposit from Others	3560156.37	0	
	भारत में स्थित शाखाओं से जमा		Deposit from branches in India	4741828.58		
	भारत से बाहर स्थित शाखाओं से जमा		Deposit from branches outside India	1332685.07		
iii	उधार	iii	Borrowings	648598.17	0	
अनुसूची	भा.रि.बैं. (भा.रि.बैं. अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत)	Schedule	RBI (u/s 19 of RBI Act)	0.00	0	
4	बैंकों से	4	From banks	265290.00	0	
	अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		Other institutions and agencies	76880.48	0	
	नवोन्मेषी नियत ऋण लिखत (आईपीडीआई)		Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	60972.13	0	यू/ U



(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

	विवरण		Particulars	वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	संदर्भ सं. Ref. No.
				31.03.2018	31.03.2018	
	बांडों के रूप में जारी संक्रमित ऋण पूंजी लिखत		Hybrid debt capital instrument issued as bonds	62617.00		वी/ V
	गौण बांड		Subordinated Bonds	60000.00	0	टी/ T
	भारत के बाहर उधार		Borrowings outside India	122838.57	0	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	iv	Other liabilities & provisions	286549.80	0	
अनुसूची	जिसमें से: देय बिल	Schedule	of which : Bills Payable	20428.27	0	
5	जिसमें से: इंटर ऑफिस समायोजन (निवल)	5	of Which : Inter Office Adjustment (Net)	5683.45	0	
	जिसमें से : आस्थगित कर देयता		of Which : Deferred tax liability	89.65		
	जिसमें से: उपचित ब्याज		of Which : Interest Accrued	34473.44	0	
	जिसमें से: मानक अग्रिमों के पेटे आकस्मिक प्रावधान		of Which : Contingent Provision against Standard Advances	31946.43	0	एक्स/ X
	जिसमें से: अन्य (प्रावधान सहित)		of Which : Other (including provision)	193928.57	0	डब्ल्यू/ W
	कुल		Total	7478049.19	0.00	
ख	आस्तियां	B	Assets	974227.46		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष	i	Cash and balances with Reserve Bank of India	240349.89	0	
	बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि		Balance with banks and money at call and short notice	733877.57	0	
ii	निवेश	ii	Investments	1751372.28	0	
अनुसूची	सरकारी प्रतिभूतियां	Schedule	Govt. Securities	1520849.23	0	एन/ N
8	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	8	Other approved securities	28620.85	0	ओ/ O
	शेयर		Shares	26887.87	0	पी/ P
	डिबेंचर एवं बांड		Debentures & Bonds	87154.73	0	क्यू/ Q
	अनुषंगिया और/ अथवा संयुक्त उद्यम भारत एवं विदेश में		Subsidiaries and/or JVs India & ABROAD	9684.93	0	आर/ R
	अन्य निवेश		Other investments	78174.68	0	एस/ S
iii	ऋण एवं अग्रिम	iii	Loans and advances	4379412.60	0	
	बट्टाकृत एवं खरीदे गये बिल		BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	452033.37	0	

(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

	विवरण		Particulars	वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन-पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	संदर्भ सं. Ref. No.
				31.03.2018	31.03.2018	
	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण		CASH CREDITS, OVERDRAFTS & LOANS REPAYABLE ON DEMAND	1959054.76	0	
	मीयादी ऋण		TERM LOANS	1968324.47	0	
iv	अचल आस्तियां	iv	Fixed assets	55322.81	0	
v	अन्य आस्तियां	v	Other assets	317714.03	0	
अनुसूची	जिसमें से: साख एवं अमूर्त आस्तियां	Schedule	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0	एल/ L
11	जिनमें से : साख	11	Out of which: Goodwill	0.00	0	
	अन्य अमूर्त (एमएसआर को छोड़कर)		Other intangibles (excluding MSRs)	254191.41	0	
	आस्थगित कर आस्तियां		Deferred tax assets	63522.63	0	एम/ M
vi	समेकन संबंधी साख	vi	Goodwill on consolidation	0.00	0	
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0	
	कुल आस्तियां		Total Assets	7478049.19	0.00	

सारणी डीएफ - 13 : विनियामक पूंजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताएं:

ऋण पूंजी लिखतों संबंधी प्रकटीकरण तथा ऋण पूंजी लिखतों के नियम एवं शर्तों को अलग से प्रकट किया गया है। प्रकटीकरण में जाने के लिए यहां क्लिक करें।

सारणी डीएफ - 14 : विनियामक पूंजीगत लिखतों के सभी नियम एवं शर्तें:

पूंजीगत लिखतों का विवरण अलग से दर्शाया गया है। पूंजीगत लिखतों के नियम एवं शर्तों को देखने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

Table DF -13 Main Features of Regulatory Capital Instruments:

Disclosures pertaining to debt capital instruments and the terms and conditions of debt capital instruments have been disclosed separately. Click here to access the disclosures.

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

The details of Capital instruments are separately disclosed. Click the related links to view the terms and conditions of the capital instruments.

क्र.सं. Sr. No	लिखत	Instruments
1	टियर I आईपीडीआई एसआर - I	TIER I IPDI SR – I
2	टियर I (आईपीडीआई) एसआर - II	TIER I (IPDI) SR –II
3	टियर I (आईपीडीआई) एसआर - III	TIER I (IPDI) SR –III
4	टियर I (आईपीडीआई) एसआर - IV	TIER I (IPDI) SR –IV
5	टियर I (पीडीआई) एसआर - V	TIER I (PDI) SR – V
6	टियर I (पीडीआई) एसआर - VI	TIER I (PDI) SR – VI
7	टियर I (पीडीआई) एसआर - VII	TIER I (PDI) SR – VII
8	टियर I (पीडीआई) एसआर - VIII	TIER I (PDI) SR – VIII



9	टियर I (पीडीआई) एसआर - IX	TIER I (PDI) SR – IX
10	बांड सीरीज - IX	BOND SERIES –IX
11	बांड सीरीज - X	BOND SERIES –X
12	बांड सीरीज -XI	BOND SERIES –XI
13	बांड सीरीज -XII	BOND SERIES –XII
14	बांड सीरीज -XIII	BOND SERIES –XIII
15	बांड सीरीज -XIV	BOND SERIES –XIV
16	बांड सीरीज -XV	BOND SERIES –XV
17	बांड सीरीज -XVI	BOND SERIES –XVI
18	बांड सीरीज -XVII	BOND SERIES –XVII

सारणी डीएफ - 15 : पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएं

चूंकि बैंक ऑफ बड़ौदा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी.एनओ.बीसी.72 / 29.67.001/2001-12 दिनांक 13 जनवरी, 2012 के अनुसार तालिका डीएफ - 15 हमारे ऊपर लागू नहीं है.

सारणी डीएफ - 16 इक्विटी: बैंकिंग बही स्थिति का प्रकटीकरण

इक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1) जिसमें शामिल हैं:

विदेशी एवं भारतीय अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सभी इक्विटी एचटीएम निवेश. ये नीतिपरक प्रकृति के हैं.

एचटीएम मूल्यांकन पद्धति

परिपक्वता पर धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार के लिए चिन्हित करना आवश्यक नहीं है और उसे अधिग्रहण की लागत पर माना जाएगा जब तक कि वह अंकित मूल्य से अधिक न हो. इस मामले में प्रीमियम परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित होनी चाहिए. चूंकि बैंक लगातार भारत और अंतर्राष्ट्रीय (डब्ल्यूएसी) की लेखांकन पद्धति को अपना रहा है अतः शिपिंग और प्रिमियम परिशोधन की गणना के उद्देश्य से भारत और अंतर्राष्ट्रीय (डब्ल्यूएसी) अधिग्रहण की लागत होगी.

बैंक अनुषंगियों / संयुक्त उद्यम में किए गए निवेशों के मूल्य में, अस्थायी के अलावा किसी भी ह्रास को मानता है, जो परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत शामिल हों और उनका प्रावधान किया गया हो. ऐसे ह्रास को एकल रूप में निर्धारित किया जाय और उसके लिए प्रावधान किया जाए.

Table DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration

As Bank of Baroda is a Public Sector bank Table DF-15 is not applicable to us as per Circular No DBOD.NO.BC.72/29.67.001/2001-12 dated January 13, 2012 of the Reserve Bank of India.

Table DF-16: Equities- Disclosure for Banking Book Positions

The general qualitative disclosure (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including:

All equity HTM investments are in Foreign and Indian Subsidiaries, JVs and RRBs. These are of Strategic in nature.

Valuation methodology of HTM

Investments classified under Held to Maturity category need not be marked to market and will be carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium should be amortized over the period remaining to maturity. Since the Bank has consistently been following the Weighted Average Cost (WAC) method of accounting, the WAC will be the acquisition cost for the purpose of shifting and also for the calculation of premium for amortization.

Bank is recognizing any diminution, other than temporary, in the value of their investments in subsidiaries/ joint ventures, which are included under Held to Maturity category and provide there for. Such diminution is determined and provided for each investment individually.

क्रम सं. Sr. No.	मद	Item	राशि (₹ लाखों में) Amount (in ₹ Lakhs)
1	निवेश	Investments	203537.71
1.1	तुलन-पत्र के अनुसार	As per Balance Sheet	201690.07
1.2	उचित मूल्य	Fair Value	201690.07
	उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों की तुलना जहां शेयर की कीमत उचित मूल्य से वास्तव में भिन्न है.	For quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	-
2	निवेश का प्रकार	Type of investment	
2.1.1	सार्वजनिक रूप से ट्रेड की गई	Publicly traded	
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री तथा समापनों से उत्पन्न संचयी वसूली प्राप्तियां (हानियां)	Cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	-
4	कुल अवसूलीकृत प्राप्तियां (हानियां)*	Total unrealised gains (losses)*	203537.71
5	कुल अंतर्निहित पुनर्मूल्यांकन प्राप्तियां (हानियां)**	Total latent revaluation gains (losses)**	-

क्रम सं. Sr. No.	मद	Item	राशि (₹ लाखों में) Amount (in ₹ Lakhs)
6	उपरोक्त में से कोई भी राशि जो टीयर 1 और/ या टीयर 2 पूंजी में शामिल है.	Any amounts of the above included in Tier 1 and/ or Tier 2 capital.	-
7	विनियामक पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में पर्यवेक्षी परिवर्तन अथवा पुराने प्रावधानों के अधीन बैंक की कार्य पद्धति, कुल राशि तथा इक्विटी निवेश के प्रकार के अनुसार उचित इक्विटी समूहीकरण द्वारा अलग-अलग की गई पूंजी आवश्यकताएं.	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	-

डीएफ-17- लेखांकन आस्तियों व लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश **DF-17- Summary Comparison of accounting assets vs Leverage Ratio exposure measure**

क्रम सं. Sr. No.	मद	Item	राशि (₹ मिलियन में) Amount (in ₹ Million)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	Total Consolidated Assets as per published financial statements.	74,78,049.18
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक इकाइयों में निवेश के लिए समायोजन, जो लेखांकन के उद्देश्य से समेकित किए गए हैं परंतु विनियामक समेकन से बाहर हैं	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation.	
3	परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसार तुलन-पत्र में शामिल की गई वैश्वासिक आस्तियों के लिए समायोजन, परंतु जो लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं है.	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure.	20,626.13
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखत समायोजन के लिए	Adjustments for derivative financial instruments	51,168.88
5	प्रतिभूती वित्तपोषण संव्यवहारों के लिए समायोजन (अर्थात रेपो एवं उसके समान सुरक्षित ऋण)	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	
6	तुलन-पत्र बाह्य मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर की क्रेडिट समकक्ष राशियों में रूपांतरण)	Adjustment for off balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposure)	5,33,200.36
7	अन्य समायोजन	Other adjustments	
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	Leverage ratio exposure	80,41,792.29

डीएफ - 18 - लीवरेज अनुपात कॉमन प्रकटीकरण नमूना

DF-18 - Leverage Ratio Common disclosure template

क्रम सं. Sr. No.	यथा 31.3.2018 को लीवरेज अनुपात मद	Leverage Ratio As On 31.03.2018 Item	राशि (₹ मिलियन में) Amount (in ₹ Million)
			मार्च-18 / Mar-18 लीवरेज अनुपात फ्रेमवर्क Leverage Ratio Framework
	तुलन-पत्र का एक्सपोजर	On-Balance sheet Exposures	
1	तुलन-पत्र की मदें (डेरिवेटिव्स तथा एसएफटी को छोड़कर परंतु सम्पार्थिक को मिलाकर)	On-Balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	74,78,049.18
2	(परिचालित बासेल III टीयर 1 पूंजी में घटायी गई आस्ति राशियां)	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	-20,626.13
3	तुलन-पत्र का कुल एक्सपोजर	Total On-balance sheet exposures	74,57,423.05
	डेरिवेटिव एक्सपोजर	Derivative Exposures	
4	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों में सम्मिलित प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी अंतर मार्जिन का निवल)	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	12,127.06
5	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों में सम्मिलित पीएफई के लिए वर्धित राशियां	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	39,041.83



राशि (₹ मिलियन में)
Amount (in ₹ Million)

क्रम सं. Sr. No.	यथा 31.3.2018 को लीवरेज अनुपात मद	Leverage Ratio As On 31.03.2018 Item	मार्च-18 / Mar-18 लीवरेज अनुपात फ्रेमवर्क Leverage Ratio Framework
	तुलन-पत्र का एक्सपोजर	On-Balance sheet Exposures	
6	डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्राँस-अप बशर्ते कि जहाँ परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसार तुलनपत्र आस्तियों से घटायी गई हों	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7	(डेरिवेटिव लेनदेनों में नकदी अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	(Deductions of receivables assets for cash variation margin in derivatives transactions)	-
8	(क्लाइंट-क्लीयर्ड ट्रेड एक्सपोजर की छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव्स की समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव्स के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफसेट एवं एड-ऑन कटौती)	(Adjusted effective notional offsets and add-on deduction for written credit derivatives)	-
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर	Total derivative exposures	51,168.88
	प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार एक्सपोजर	Securities Financing Transaction Exposures	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (शुद्ध करने की एमओ स्वीकृति सहित), बिक्री लेखांकन संव्यवहारों के लिए समायोजन करने के बाद	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	-
13	(सकल एसएफटी आस्तियों की नकदी देय तथा नकदी प्राप्य की शुद्ध की गई राशि)	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	CCR exposure for SFT assets	-
15	एजेंट संव्यवहार एक्सपोजर	Agent transaction exposures	-
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार एक्सपोजर	Total securities financing transaction exposure	-
	अन्य तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर	Other off-balance sheet exposures	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	15,09,312.82
18	(ऋण समकक्ष राशियों के रूपांतरण के लिए समायोजन)	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-9,76,112.46
19	तुलनपत्र बाह्य मदें	Off-Balance sheet items	5,33,200.36
	पूँजीगत एवं कुल एक्सपोजर	Capital and total exposures	
20	टीयर 1 पूँजी	Tier 1 capital	4,73,520.15
21	कुल एक्सपोजर	Total Exposures	80,41,792.29
	लीवरेज अनुपात	Leverage ratio	
22	बासेल III लीवरेज अनुपात	Basel III leverage ratio	5.89%